



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1067) पटना, बुधवार, 13 नवम्बर 2024

सं० एल/एच०जी०-302/2016-10754

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प

4 नवम्बर 2024

विषय:— विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2408, दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-3 (iii) को संशोधित करते हुए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में एक माह का वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचाग वर्ष में 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान्यता प्रदान करने के संबंध में।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2408, दिनांक-23.03.2018 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय की स्वीकृति प्रदान करते हुए कंडिका-3 (iii) में यह प्रावधान किया गया है कि “जिन्हें एक माह का मानदेय स्वीकृत किया जाएगा, उनको क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।”

2. मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-2148, दिनांक-17.05.2018 एवं पत्रांक-4677, दिनांक-02.09.2022 के द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान अवकाश के दिनों में भी काम करने के एवज में एक माह का वेतन के बराबर मानदेय भुगतान हेतु निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2408, दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-3 (iii) में देय क्षतिपूर्ति अवकाश को समाप्त करने के प्रावधान में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

3. गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञाप सं०-4/वि० 1-10-71/2014 गृ०आ०-6185, दिनांक-27.08.2015 द्वारा एक माह के वेतन के बराबर मानदेय सुविधा प्राप्त करने वाले पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को एक पंचाग वर्ष में 20 दिन के क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता अनुमान्य की गयी है।

4. अतएव सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2408, दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-3 (iii) को संशोधित करते हुए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में एक माह का वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचाग वर्ष में 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1067-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>